



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष 1931 (श10)
(सं0 पटना 1) पटना, शुक्रवार, 1 जनवरी 2010

सं03ए-2-वे0पु0(चि0 भत्ता)-21/2009-12357/वि(2)

वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय :- राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत चिकित्सा भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा भत्ता की दरों को निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया है:-
- राज्य के सरकारी सेवकों को वर्तमान में प्रतिमाह रु० 100 (एक सौ) चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित कर रु० 200 (दो सौ) की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 के प्रभाव से लागू होगा ।
- कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र के बिना प्रतीक्षा किए भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जाएगा ।
- जहां तक उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पदाधिकारियों को संशोधित चिकित्सा भत्ता देने का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पटना

उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पर्वार,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>